



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1357]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 2005/पौष 7, 1927

No. 1357]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 28, 2005/PAUSA 7, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2005

सं. 112/2005—सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1827(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (2) तथा (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में निम्नलिखित मामलों के न्यायनिर्णयन एवं जांच-पड़ताल के प्रयोजनार्थ उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करता है, अर्थात् :-

क्रम सं.	कारण बताओं नोटिस	पार्टी का नाम	अधिकारी का पद नाम	अधिकारी का पद नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	डी आर आई/आई एन वी-14/98, भाग-VI, दिनांक 23 मार्च, 2004	मै. कलरटेक्स	(i) सीमा शुल्क आयुक्त, कांडला (ii) सीमा शुल्क (निर्यात संवर्धन) आयुक्त, न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई (iii) सीमा शुल्क आयुक्त, जामनगर	अपर महानिदेशक (सतर्कता), मुम्बई
2.	डी आर आई/आई एन वी-4/2003-जखी, दिनांक 30 अगस्त, 2005	मै. ताहेरा इन्टरनेशनल	सीमा शुल्क आयुक्त (मुलुन्ड सी एफ एस एण्ड सामान्य) कस्टम हाऊस, मुम्बई;	सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा
3.	डी आर आई/आई एन वी-4/2003, दिनांक 21 जून, 2004	मै. ताहेरा इन्टरनेशनल	(i) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा (ii) सीमा शुल्क आयुक्त (मुलुन्ड सी एफ एस एण्ड सामान्य) न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई;	सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा

4.	डी आर आई/आई एन वी-6/2003, दिनांक 30 जून, 2004	मै. बी. हीरा इंटरप्राइजेज	(i) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा (ii) सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात संवधन) न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई;	सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा
5.	डी आर आई/आई एन वी-8/2003, दिनांक 30 जून, 2004	मैसर्स अगाना एक्सपोर्ट्स	(i) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा (ii) सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात संवधन) न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई; (iii) सीमा शुल्क आयुक्त (मुलुन्ड सी एफ एस एण्ड सामान्य) न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई;	सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा
6.	डी आर आई/आई एन वी-7/2003, दिनांक 30 जून, 2004	मैसर्स इलाक्सी टेक्सटाईल्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	(i) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा (ii) सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात संवधन) न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई; (iii) सीमा शुल्क आयुक्त (मुलुन्ड सी एफ एस एण्ड सामान्य) न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई;	सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा
7.	डी आर आई/आई एन वी-9/2003, दिनांक 31 अगस्त, 2004	मैसर्स जे गिगेव टेक्सटाईल्स	(i) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा (ii) सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात संवधन) न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई;	सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा
8.	डी आर आई/आई एन वी-13/2003, दिनांक 29 नवम्बर, 2004	मैसर्स तिरुपति एक्सपोर्ट्स	(i) सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात संवधन) न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई; (ii) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा	सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा
9.	डी आर आई/आई एन वी-12/2004, दिनांक 28 अक्टूबर, 2004	मैसर्स स्पेक्ट्रम फैब्रिक्स	(i) सीमा शुल्क आयुक्त जनपत, न्हावा शेवा (ii) सीमा शुल्क आयुक्त मुम्बई सी पोर्ट, न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई	सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) जवाहर कस्टम हाऊस, न्हावा शेवा
10.	डी आर आई/आई एन वी-1/2004, दिनांक 29 जून, 2005	मैसर्स विशाल एक्सपोर्ट्स ओवरसीज लि.	(i) सीमा शुल्क आयुक्त न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई; (ii) सीमा शुल्क आयुक्त (मुलुन्ड सी एफ एस एण्ड सामान्य) न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई; (iii) सीमा शुल्क आयुक्त, कांडला (iv) सीमा शुल्क आयुक्त, आई सी डी, नई दिल्ली (v) सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त, विशापट्टनम-II (vi) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), चैन्नई सी; (vii) सीमा शुल्क आयुक्त (मुलुन्ड सी एफ एस एण्ड सामान्य) न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई;	सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात संवधन) न्यू कस्टम हाऊस, मुम्बई

11.	डी आर आई/आई एन वी-16/2003, दिनांक 24 फरवरी, 2004	श्री मोहम्मद अफजल हल्साना	(i) अपर आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक) वेस्ट बंगाल, कोलकाता; (ii) अपर आयुक्त सीमा शुल्क जामनगर	अपर आयुक्त सीमा शुल्क, जामनगर
-----	--	---------------------------	---	-------------------------------

[फा. सं. 437/25/2005-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2005

No. 112/2005—CUSTOMS (N.T.)

S.O. 1827(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the officers specified in column (5) of the Table below to act in respect of the matters specified in the corresponding entries in columns (2) and (3) of the said Table as officers specified in corresponding entry in column (4) of the said Table for the purpose of adjudication and investigation of such matters, namely :-

TABLE

Sl. No.	Show Cause Notice	Name of the	Designation of Officer	Designation of Officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DRI/AZU/INV-14/98 Pt. VII, dated 23 rd March, 2004.	M/s Colourtex	(i) Commissioner of Customs, Kandla; (ii) Commissioner of Customs (Export Promotion), New Custom House, Mumbai; (iii) Commissioner of Customs, Jamnagar.	Additional Director General (Vigilance), Mumbai.
2	DRI/AZU/INV-04/2003-seizure, dated 30 th August, 2005.	M/s Tahera International	Commissioner of Customs (Mulund CFS & General), New Custom House, Mumbai.	Commissioner of Customs (Import), Jawahar Customs House, Nhava Sheva
3	DRI/AZU/INV-04/2003, dated 21 st June, 2004.	M/s Tahera International	(i) Commissioner of Customs (Exports), Jawahar Customs House, Nhava Sheva; (ii) Commissioner of Customs (Mulund CFS & General), New Custom House, Mumbai.	Commissioner of Customs (Import), Jawahar Customs House, Nhava Sheva.

4	DRI/AZU/INV-06/2003, dated 30th June, 2004.	M/s B. Hira Enterprises	(i) Commissioner of Customs (Exports), Jawahar Customs House, Nhava Sheva; (ii) Commissioner of Customs (Export Promotion), New Custom House, Mumbai.	Commissioner of Customs (Import), Jawahar Customs House, Nhava Sheva.
5	DRI/AZU/INV-08/2003, dated 30th June, 2004.	M/s Angana Exports	(i) Commissioner of Customs (Exports), Jawahar Customs House, Nhava Sheva; (ii) Commissioner of Customs (Export Promotion), New Custom House, Mumbai; (iii) Commissioner of Customs (Mulund CFS & General), New Custom House, Mumbai.	Commissioner of Customs (Import), Jawahar Customs House, Nhava Sheva.
6	DRI/AZU/INV-07/2003, dated 30th June, 2004	M/s Ilaxi Textiles Industries Pvt Ltd	(i) Commissioner of Customs (Exports), Jawahar Custom House, Nhava Sheva; (ii) Commissioner of Customs (Export Promotion), New Custom House, Mumbai; (iii) Commissioner of Customs (Mulund CFS & General), New Custom House, Mumbai.	Commissioner of Customs (Import), Jawahar Customs House, Nhava Sheva.
7	DRI/AZU/INV-09/2003, dated 31st August, 2004	M/s Jay Gigeve Textiles	(i) Commissioner of Customs (Exports), Jawahar Custom House, Nhava Sheva; (ii) Commissioner of Customs (Export Promotion), New Custom House, Mumbai.	Commissioner of Customs (Import), Jawahar Customs House, Nhava Sheva.
8	DRI/SRU/INV-13/2003, dated 29th November, 2004	M/s Tirupati Exports	(i) Commissioner of Customs (Export Promotion), New Custom House, Mumbai; (ii) Commissioner of Customs (Import), Jawahar Custom House, Nhava Sheva.	Commissioner of Customs (Import), Jawahar Customs House, Nhava Sheva.
9	DRI/AZU/INV-12/2004, dated 28th October, 2004	M/s Spectrum Fabrics	(i) Commissioner of Customs, JNPT, Nhava Sheva; (ii) Commissioner of Customs, Mumbai Sea Port, New Custom House, Mumbai.	Commissioner of Customs (Import), Jawahar Customs House, Nhava Sheva.

10	DRJ/AZU/INV-01/2004, dated 29th June, 2005	M/s Vishal Export Overseas Ltd	(i) Commissioner of Customs(Export Promotion) New Custom House, Mumbai; (ii) Commissioner of Customs (Export) Jawahar Custom House, Nhava Sheva; (iii) Commissioner of Customs, Kandla; (iv) Commissioner of Customs, ICD, New Delhi; (v) Commissioner of Customs and Central Excise, Vishakhapatnam-II; (vi) Commissioner of Customs(Ports) Chennai Sea; (vii) Commissioner of Customs(Mulund CFS & General) New Custom House, Mumbai.	Commissioner of Customs (Export Promotion), New Custom House, Mumbai.
11	DRJ/AZU/INV-16/2003, dated 24th February, 2004	Shri Mohammad. Afzal Halsana	(i) Additional Commissioner of Customs(Preventive), West Bengal, Kolkata; (ii) Additional Commissioner of Customs, Jamnagar.	Additional Commissioner of Customs, Jamnagar.

[F. No. 437/25/2005-CUS-IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2005

सं. 113/2005—सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 1828(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम (3) के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा अपर महानिदेशक, अहमदाबाद जोनल इकाई, रुपेन बंगला, जैन मर्चेंट सोसायटी के पास, पाल्डी, अहमदाबाद द्वारा फा.सं.डी आर आई/एस आर यू/आई एन वी-2/2004, दिनांक 18 जुलाई, 2005 के तहत मै. क्लेरिटी इन्टरमीडिएट्स एंड पेस्टीसाइड्स सूरत तथा अन्य को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात), जवाहर सीमा शुल्क गृह, न्हावा शेवा, मुम्बई को

- (i) सीमा शुल्क आयुक्त (निर्यात संवर्धन), न्यू कस्टम हाऊस, बल्लार्ड एस्टेट, मुम्बई;
- (ii) सीमा शुल्क आयुक्त, अहमदाबाद;
- (iii) सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), जवाहर सीमा शुल्क गृह, न्हावा शेवा, मुम्बई;
- (iv) सीमा शुल्क आयुक्त, मुम्बई;
- (v) सीमा शुल्क आयुक्त, कांडला

3733 GI/05-2

- (vi) सीमा शुल्क आयुक्त, कोचीन;
 (vii) सीमा शुल्क आयुक्त, विशाखापट्टनम;
 (viii) सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर;
 (ix) सीमा शुल्क आयुक्त (अंतर्देशीय आधान डिपो) अंतर्देशीय आधान डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली
 (x) समुद्री आयुक्त, चौपाटी, मुम्बई
 (xi) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त, बड़ोदरा-1
 (xii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त, सूरत-II; तथा
 (xiii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क आयुक्त, सूरत-1
 के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/26/2005-सीमा शुल्क-IV]

अनुपम प्रकाश, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2005

No. 113/2005—CUSTOMS (N.T.)

S.O. 1828(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub rule (1) of rule (3) of Central Excise Rules, 2002, the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs (Exports), Jawahar Custom House, Nhava Sheva, Mumbai to act as, -

- (i) Commissioner of Customs (Export Promotion), New Custom House, Ballard Estate, Mumbai;
- (ii) Commissioner of Customs, Ahmedabad,
- (iii) Commissioner of Customs (Import), Jawahar Custom House, Nhava Sheva, Mumbai,
- (iv) Commissioner of Customs, Mumbai,
- (v) Commissioner of Customs, Kandla,
- (vi) Commissioner of Customs, Cochin,
- (vii) Commissioner of Customs, Visakhapatnam,
- (viii) Commissioner of Customs (Preventive), Jamnagar,
- (ix) Commissioner of Customs (Inland Container Depots), Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi,
- (x) Maritime Commissioner, Chowpatty, Mumbai,
- (xi) Commissioner of Central Excise and Customs, Vadodara - I,
- (xii) Commissioner of Central Excise and Customs, Surat - II, and
- (xiii) Commissioner of Central Excise and Customs, Surat - I

for the purposes of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Clarity Intermediates and Pesticides, Surat and Others, issued vide Directorate of Revenue Intelligence F.No.DRI/SRU/INV-2/2004, dated the 18th July, 2005, by the Additional Director General, Ahmedabad Zonal Unit, Rupen Bungalow, Near Jain Merchant Society, Paldi, Ahmedabad..

[F.No. 437/26/2005-CUS. IV]

ANUPAM PRAKASH, Under Secy.